



Ref: SSL/Stock Exchange/NP/2025-26
June 11, 2025

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort Mumbai
Fax No. 022-22721072/2037/2041

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex,
Mumbai- 400051
Fax No, 022-26598237/38

Ref: Scrip Code: BSE - 539742; NSE-SIMBHALS
Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulation, 2015
Audited Standalone Financial Results - News Paper Clippings

Dear Sir,

The audited standalone financial results for quarter and year ended on March 31, 2025, as certified by Chief Financial Officer and taken on record by IRP of the Company in the IRP convened meeting held on June 09, 2025, were published in The Business Standard (English) & Business Standard (Hindi) in the edition on June 11, 2025. Newspaper clippings are enclosed.

Please take the above information on records.

Thanking You
Yours faithfully,
For Simbhaoli Sugars Limited

Company Secretary & Compliance Officer
M. No - A13430

Simbhaoli Sugars Limited

(An FSSC 22000 : version 6.1, ISO 900 ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company)

Registered Office : Simbhaoli, Distt. Hapur, Uttar Pradesh, 245207 | Tel : 0120-4132077

GSTIN : 09AAPCS7569A1ZV | PAN : AAPCS7569A | CIN : L15122UP2011PLC044210

E-mail : info@simbhaolisugars.com | www.simbhaolisugars.com

Specialty Sugars


Potable Alcohol

Ethanol

Power

SIMBHAOLI SUGARS LIMITED (Formerly known as 'Simbhaoli Spirits Limited') Regd. Office : Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.) - 245207 CIN - L15122UP2011PLC044210 E-mail: info@simbhaolisugars.com Website: www.simbhaolisugars.com					
EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025 (Rs. in Lacs)					
S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		March 31,2025 Audited	December 31,2024 Audited	March 31,2024 Audited	March 31,2024 Audited
1.	Total income from operations (net)	31,580.96	22,120.12	34,537.66	97,674.29
2.	NetProfit/(loss) for the period before Tax and exceptional items	4,752.90	(265.90)	3,515.99	2,399.05
3.	NetProfit/(loss) for the period before Tax and after exceptional items	4,752.90	(265.90)	3,515.99	2,399.05
4.	NetProfit/(loss) for the period after Tax and exceptional items	4,752.90	(265.90)	3,515.99	2,399.05
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising net profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,725.81	(265.90)	3,460.24	2,371.96
6.	Paid up equity share capital (face value Rs.10/- each)	4,127.90	4,127.90	4,127.90	4,127.90
7.	Other Equity			(8,797.46)	(11,188.37)
8.	-EPS before exceptional item	11.51	(0.64)	8.52	5.81
	-EPS after exceptional item	11.51	(0.64)	8.52	5.81
Notes :					
1 The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended Mar 31, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results for the quarter and year ended Mar 31, 2025 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.simbhaolisugars.com).					
2 Due to sub-optimum capacity utilization of its manufacturing capacities and other internal and external factors, the Company had continuously incurred huge losses in past resulting in complete erosion of its net worth, rendering the Company unable to meet payment obligations towards its lenders as well as to the sugarcane farmers in terms of their respective agreements and understanding. Due to defaults in repayment of credit facilities, lenders to the Company had initiated recovery proceedings at various forums, including filing of applications before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and also filing of recovery proceedings against personal guarantors (Promoters) before NCLT under section 95 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, in addition to approaching Debt Recovery Tribunals in Delhi as well as in Lucknow, Uttar Pradesh. Two of the lenders had declared the Company and Guarantors to the credit facility, as Willful Defaulters, which was Set Aside by Hon'ble Punjab and Haryana High court at Chandigarh and Delhi High Court. Further, one of the lenders has also issued show cause notice to the Company on April 25, 2025 to categorize the account as fraud. Since, the Company is under control of IRP, the IRP on behalf of the Company is not in position to contest the Show Cause Notice. The same has been duly informed to the lender by the IRP. However, members of the suspended Board of Directors can contest the same in their own capacity. While one of the lenders had initiated recovery proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act, wherein non-bailable warrants were issued against the erstwhile directors and officials of the Company, which are being contested at the appropriate forum. Against a criminal complaint filed by one of the lenders, the Enforcement Directorate had passed an Attachment Order on certain assets of the Company to the extent of 109.80 Crore, against which the Company had preferred an appeal before with the appropriate authority and an Interim Stay had been granted by the Hon'ble Appellate Tribunal.					
3 Pursuant to an application filed by Oriental Bank of Commerce (now Punjab National Bank) before Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Prayagraj ("NCLT") under section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with the rules and regulations framed thereunder ("Code"), the NCLT had admitted the application and ordered the commencement of Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") of Simbhaoli Sugars Limited ("Corporate Debtor" or "Company") vide its order dated July 11, 2024. NCLT had appointed Mr. Anurag Goel, as Interim Resolution Professional (IRP) to carry the functions as mentioned under the Code. Since then, Mr. Anurag Goel has in his capacity as IRP took control and custody of the management and operations of the Corporate Debtor. One of the Promoters of the Company, Ms. Gursimran Kaur Mann and one of the farmers Mr. Surender Pal Singh Mangat, who has been supplying cane to the Corporate Debtor and also providing transport services to the Corporate Debtor under name and style of M/s Simbhaoli Transport Carriers Pvt Ltd., a 60:40 venture between promoters of Simbhaoli Sugars Limited (60.00%) and Mr. Surender Pal Singh Mangat and his family (40.00%), have filed an appeal before the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal, New Delhi ("NCLAT") against the order passed by NCLT on July 11, 2024. The NCLAT vide its interim order dated July 24, 2024 allowed time in view of giving opportunity to the financial creditors to take a decision with regards to the settlement proposals received by them and given directions that no further steps shall be taken in pursuant of the impugned order passed by NCLT and allowed IRP to continue to manage the operations of the corporate debtors and fixed the next date of hearing on July 21 2025 & July 22, 2025.					
4 Considering the above stated factors, no provision of interest payable to the commercial lenders has been made in the accounts for the past several years/quarters. Further considering the fact of admitting the Company to CIRP and pending decision of NCLAT, no provision of interest payable to non-commercial lenders has been made during the year for the periods after June 30, 2024. The estimated interest expenses on credit facilities for the quarter and year ended March 31, 2025 amounting to ₹ 8,116.17 Lakhs and ₹ 63,937.03 Lakhs respectively, basis the contracted rates and claims filed by the financial creditors before IRP (Previous Quarter and year ended March 31, 2024 ₹ 9,347.63 Lakhs and ₹ 22,144.56 Lakhs respectively) and estimated accumulated interest expenses amounting to ₹ 1,75,029.63 Lakhs has not been provided for in the books of accounts as on March 31, 2025. The auditors have drawn qualification in this regard in their Audit Report for the quarter and year ended March 31, 2025.					
5 On finalization and implementation of the CIRP through Hon'ble NCLT, the Company shall assess the impairment in the carrying amount of Property, Plant and Equipment and other assets and accordingly will provide it. Further, write back of accounted for accrued interest payable to lenders, outstanding liabilities of lenders and other operational liabilities shall also be accounted for after finalization and implementation of CIRP. The above audited financial results are drawn on the basis of carrying amount as per books of accounts of the Company. The auditors have drawn qualification in this regard in their Audit Report for the quarter and year ended March 31, 2025.					
6 Considering these developments, including, in particular, the IRP taken over the management and control of the Company with the objective of running it as going concern, the financial results are continued to be prepared on going concern basis. However, since the Company continues to incur loss, current liabilities exceed current assets and it has defaulted in payment of dues to lenders, cane farmers and other dues, these events indicate that material uncertainty exists that may cast significant doubts on Company's ability to continue as a going concern. The auditors have drawn qualification in this regard in their Audit Report for the quarter and year ended March 31, 2025.					
7 Considering the facts that Uttar Pradesh State Government had never enforced the payment of interest on the delayed payment of sugar cane price to the farmers which was payable under the provisions of section 17(3) of the U.P. Sugarcane (Regulations of Supply and Purchase) Act, 1953, the Company had not made any provision in respect of said interest in past as well as during the current financial year. The interest on delayed payment of cane dues as claimed by the cane societies before the IRP office as on July 11, 2024 amounts to ₹ 12,163.25 Lakhs which is under subjudice and accordingly have not been provided for in the books of accounts. The auditors have drawn qualification in this regard in their Audit Report for the quarter and year ended March 31, 2025.					
8 The Board of the Simbhaoli Power Private Limited (SPPL), a 51% subsidiary, has not yet approved its accounts for the financial year 2024-25. The Company has exposure aggregating to ₹ 70,791.95 Lakhs in the aforesaid subsidiary, by way of investments, trade and other receivables and accrued accumulated interest on debentures. The auditors of SPPL has expressed disclaimer of opinion on its financial statements for the financial year 2023-24 on account of significant doubts on SPPL's ability to continue as going concern, possible impairment in the value of PPE and filing of petition by one of the joint venture partners before NCLT, Allahabad Bench, Prayagraj alleging operation and mismanagement of the SPPL and other parties. The Company shall assess the impairment in the carrying amounts of investments in and other recoverable from SPPL on finalization and implementation of the CIRP through Hon'ble NCLT and accordingly will provide it. Further, the Company and SPPL are in disputes in the matter of levy of certain penalties amounting to ₹ 1,640.29 Lakhs. The company has not accounted for penalties levied by SPPL of ₹ 1,116.19 Lakhs and SPPL has not accounted for penalties levied by the company of ₹ 524.10 Lakhs. Due to aforesaid reasons the profit for the quarter and year ended March 31, 2025 is overstated by ₹ 1640.29 Lakhs. The auditors have drawn qualification in these regards in their Audit Report for the quarter and year ended March 31, 2025.					
9 The Company has exposure aggregating to ₹ 646.18 Lakhs in Integrated Casetech Consultants Pvt. Ltd. (ICCLP) a subsidiary company, by way of investments and advances. Financial Statements of ICCLP for the year ended March 31, 2025 have not yet finalized and audited. As per Reviewed Quarterly Results of ICCLP for the period ended December 31, 2024, it has incurred losses during the quarter and nine months ended December 31, 2024 and earlier periods, resulting in erosion of its net worth. Its auditors have qualified the limited review report for the quarter and nine months ended December 31, 2024 for not making provisions for impairment in respect of disputed unutilized revenue of ₹ 462.57 Lakhs and earned money deposit of ₹ 100.50 Lakhs, which has not been billed since FY 2020-21 and reported the existence of material uncertainty that might cast significant doubts about its ability to continue as a going concern. The Company shall assess the impairment in the carrying amounts of investments in and other recoverable from ICCLP on finalization and implementation of the CIRP through Hon'ble NCLT and accordingly will provide it. The auditors have drawn qualification in this regard in their Audit Report for the quarter and year ended March 31, 2025.					
10 The Company paid remuneration for two years to the Managing Director, Mrs. Gursimran Kaur Mann and Whole-Time Director, Mr. S.N. Misra, aggregating to ₹ 301.82 Lakhs in the earlier financial years, as per the terms of Special Resolutions passed at the 10th Annual General Meeting (AGM) held on September 27, 2021, without obtaining the consent from all the lenders as mandated by the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013. Further, the company has also paid/provided remuneration to Mr. S.N. Misra, an employee cum Whole Time Director cum COO of the Company, as per terms of special Resolution passed at AGM on September 28, 2023 for the CIRP period (i.e. w.e.f. 11th July 2024 till March 31, 2025) amounting to ₹ 54.01 Lakhs, without obtaining the consent from all the lenders as mandated by the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013, as he continues to discharge his duties as COO during the CIRP period as per his terms of employment which clearly provides that in case of cessation of being a Whole Time Director, he shall be continuing as COO of the Company. The auditors have drawn qualification in this regard in their Audit Report for the quarter and year ended March 31, 2025.					
11 As per last appointment cum continuation letter, the tenure of Chief Financial Officer Mr. D.C. Popli, has expired on 14th February 2025. Since the stay granted by Hon'ble NCLAT has been continuing and in result COC formation is on hold, renewal of the terms and continuation of appointment of the CFO could not be placed before the COC for ratification and approval. Pending the said approval, no provision for the remuneration which shall be accruing and payable to him for the period from February 15, 2025 to March 31, 2025 amounting to ₹ 9.23 Lakhs has been made. The auditors have drawn qualification in this regard in their Audit Report for the quarter and year ended March 31, 2025.					
12 The CIRP proceeding has been stayed by Hon'ble NCLAT and in turn COC could not be formed. Since in absence of COC ratification of CIRP cost by COC could not be completed, no provision of CIRP costs have been made in the books of accounts. However, M/s Punjab National Bank, on whose application the CIRP proceedings has started on July 11, 2024, had disbursed partial CIRP cost in the Company's CIRP Bank account, which was further paid towards the CIRP Costs. As per the provisions of IBC, 2016 and generally prevailing practices, CIRP Cost will be borne by Successful Resolution Applicant and will be reimbursed to respective contributing lenders.					
13 Previous period figures have been regrouped/restated in respect of classification of interest accrued on gratuity liabilities as per Actuarial Valuation of ₹ 97.68 Lakhs which was classified as interest expenses in March 2024 financial results but is classified as employee benefit expenses during the current financial year.					
14 The figures for last quarter are the balancing figures between the audited figures in respect full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the financial year.					
15 Since the management of the Company has been taken over by the IRP, these financial statements have not been considered and recommended by the Audit Committee and not been approved by the Board of the Directors. However, the same have been certified by the Chief Financial Officer of the Company. Based on this certification, these financial statements have been taken on record by IRP and signed solely for the purpose of ensuring compliance by the Corporate Debtor with applicable law, and subject to the following disclaimers: i) The IRP has assumed control of the Corporate Debtor with effect from July 12, 2024; ii) The IRP has furnished and signed the report in good faith and accordingly, no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the IRP in terms of Section 233 of the Code; iii) No statement, fact, information (whether current or historical) or opinion contained herein should be construed as a representation or warranty, express or implied, of the IRP including, his authorized representatives or advisors; iv) The IRP, while signing this statement of financial results, has relied upon the assistance provided by the Key Management Personnel and Directors of the Corporate Debtor. The statement of financial results of the Corporate Debtor for the year ended on March 31, 2025 have been taken on record by the IRP solely on the basis of and on relying on the certifications, representations and statements of the directors and management of Corporate Debtor. For all such information and data, the IRP has assumed that such information and data are in conformity with the Companies Act, 2013 and other applicable laws with respect to the preparation of the financial statements and that they give true and fair view of the position of the Corporate Debtor as of the dates and period indicated therein. Accordingly, the IRP is not making any representations regarding accuracy, veracity or completeness of the data or information in the financial statements. v) Financial results have not been considered and recommended by Audit Committee and consequently the Board of Directors as the same are not required as per SEBI (LODR) Regulations. For Simbhaoli Sugars Limited Certified By : Dhayal Chand Popli Chief Financial Officer PAN No. AAZPP6796M Taken on record by: Anurag Goel Interim Resolution Professional BBII/PA-001/IP-P-00876/2017-2018/11460					
Place: Simbhaoli, Hapur (UP) Date : June 09, 2025					
<div>Scan QR Code for detailed Financial Results</div> 					


APPOINTMENTS

**MINERAL EXPLORATION AND CONSULTANCY LIMITED**
Dr. Babasaheb Ambedkar Bhavan, Seminary Hills,
Nagpur- 440006 (Maharashtra)
Phone: (0712)-2510310 **CIN:**U13100MH1972GOI016078
E-Mail: hod-hrd@mecl.co.in **Website:** www.mecl.co.in

Mineral Exploration And Consultancy Limited (MECL), A Miniratna-I CPSE, under the Ministry of Mines, Government of India, invites applications for **Recruitment For Various Non-Executive Posts in MECL**. For detailed advertisement, please visit at Career Section of our Corporate website at: **www.mecl.co.in**

Commencement of online registration for submitting applications is **14.06.2025** and the closing date is **05.07.2025**.

Advt. No. 03/Rectt/2025
Date: 03.06.2025
General Manager (HR)

**Indian Overseas Bank**

Indian Overseas Bank ; Udaipur Branch
Opp Town Hall, Panchsheel marg, Udaipur-313001

NOTICE FOR BREAK OPEN OF BANK LOCKER
This is to inform all concerned parties that, as per the provision of the bank locker agreement and due to non-payment of dues & failure to operate the locker the lockers mentioned below will be broken open.

S. Locker No.	Holders Name	Last known Address	Date of Break Open
1	020106	Mrs. Vandana Mohala & Mr. H N Mohale	House No. 244/17, Ashok Nagar, Udaipur.
2	030180	Mr Pratap Singh Bhatnagar	S/o Umrao Singhji, 47 Gogawatwari Chandpole, Udaipur-313001.
3	030216	Mrs. Sudha Sharma	12-13, Ahinsa Puri (Fatehpura) Udaipur.
4	030232	Mrs Rekha Shaktawat & Mr. Rajendra Singh Shaktawat	56, Hirani Magri Sector-3, Udaipur
5	030233	Mrs. Saroj Lalwani & Mr. JK Lalwani	Lalwani Press, Lalwani Press Road, Bhopal-462001
6	040334	Mr. Rameshtwar Sharma & Mrs. Gayatri Sharma	21, Panchwati Road No.2 Udaipur

If concerned customer has any objections or the locker holder wishes to clear the outstanding dues or resolve the issue, they are requested to contact the bank immediately at **Address: Indian Overseas Bank, Udaipur Branch Opp. Town Hall, 10 Panchsheel marg, Udaipur-313001**. Before the scheduled date of break opening in the event that the locker holder does not respond or take the necessary action, the bank reserves the right to break open the locker and take further steps as per the terms and conditions of the locker agreement. This notice is issued in accordance with the bank's policy and regulatory requirements. For any inquiries or concerns please contact us at Br phone no./Email Id: **9925950645 / job0645@ioib.in**.
Date: 11.06.2025
Authorized Signatory
(Branch Manager) Indian Overseas Bank

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of **SAMMAAN FINSERVE LIMITED (CIN:U65923DL2006PLC150632)** (formerly known as **INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMITED**) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **18.03.2025** calling upon the Borrower(s) **BIBHASH SHARMA PROPRIETOR M/S BIBHASH SHARMA and KARUNA SHARMA** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs. 37,66,357.12 (Rupees Thirty Seven Lakhs Sixty Six Thousand Three Hundred Fifty Seven And Paise Twelve Only)** against Loan Account No. **HLLDPR00552268** as on **17.03.2025** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.


The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **06.06.2025**.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **SAMMAAN FINSERVE LIMITED** (formerly known as **INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMITED**) for an amount of **Rs. 37,66,357.12 (Rupees Thirty Seven Lakhs Sixty Six Thousand Three Hundred Fifty Seven And Paise Twelve Only)** as on **17.03.2025** and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets).

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY	
PROPERTY NO. 1	
PROPERTY KHASARA NO. 122/17/6 MIN, SECOND FLOOR, ADMEASURING 738 SQ. FEET, I.E. 82 SQ YARDS, (WITH ROOF RIGHTS), WEST SANT NAGAR, LALDORA OF VILLAGE BURARI, NEW DELHI-110084, DELHI.	
PROPERTY NO. 2	
PROPERTY KHASARA NO. 122/17/6 MIN, THIRD FLOOR, ADMEASURING 738 SQ. FEET, I.E. 82 SQ YARDS, (WITH ROOF RIGHTS), WEST SANT NAGAR, LALDORA OF VILLAGE BURARI, NEW DELHI-110084, DELHI.	
Date : 06.06.2025 Place : DELHI	Sd/- Authorised Officer SAMMAAN FINSERVE LIMITED (formerly known as INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMITED)

PUBLIC NOTICE



Cummins India Ltd., Registered Office at Cummins India Office Campus, Tower A, 5th Floor, S. No. 21, Balewadi, Pune 411045, is pleased to announce that effective **April 21, 2025**, Cummins Sales & Service Pvt. Ltd. is renamed as **"Pal Jay Power Solutions Pvt. Ltd"** (CIN:U29190DL2012PTC230162) and shall continue to be an authorized dealer of Cummins India Limited ["Cummins"] to offer Cummins products & after-sales services on a non-exclusive basis in the following authorized locations

a. Districts:- Aligarh, Bareilly, Budaun, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar (Noida, Greater Noida etc.), Ghaziabad, Hathras, Hapur, Lakhimpur Kheri, Pilibhit, Rampur, Shahjahanpur, Lucknow, Barabanki, Bahraich, Shravasti, Hardoi, Sitapur, Rae Bareilly, Pratapgarh, Sultanpur, Faizabad, Gonda, Balrampur, Amethi, Gorakhpur, Azamgarh, Ballia, Basti, Deoria, Kushinagar, Santkabirnagar, Maharajgunj, Siddharthnagar, Ambedkarnagar and Mau in the state of Uttar Pradesh;

b. Central Delhi, East Delhi, New Delhi, North Delhi, North East Delhi, North West Delhi, South Delhi, South West Delhi & West Delhi in the state of Delhi &;

c. Districts:- Almora, Bageshwar, Champawat, Nainital, Pithoragath and Udham Singh Nagar in the state of Uttarakhand.

Pal Jay Power Solutions Pvt. Ltd.
Registered Office: DPT009, Prime Towers, F 79-80, Okhla Phase-I, Okhla, New Delhi-110020, Delhi, India
Head Office: B-69, Noida, Sector-63, Uttar Pradesh 201301
Contact person: Mr.Prashant Luthra -
Mob: 9810006669
Email id: prashantluthra@luthragroup.net

Retail Asset Collection Department:
DCB BANK LTD., 2nd Floor, S-1 To S-2, Gejeigarh Tower, Hawa Sadak, Civil Lines Jaipur-302006 (Rajasthan)

DCB BANK

E-AUCTION SALE NOTICE
[Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002]
E-Auction sale notice for sale of immovable Assets under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s), co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB BANK LTD., The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The property will be sold by tender cum public E-auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per the below details:-
The property will be sold "as is where is" and "as is what is" condition.

Sr. No.	Name of Borrower and Guarantors	Details of Mortgage Property	1. Reserve Price / 2. Earnest Money Deposit (EMD) / 3. Bid Increase Amount	Date & Time of E-Auction	Type of Possession
1.	1. ANJALI DEVI and 2.YOGESH KUMAR	Flat No. 806, 8th Floor, Rose Tower, Alwar Tijara Road, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan - 301001	1.Rs.1150000/- (Rupees Eleven Lakh Fifty Thousand Only), 2.Rs.1150000/- (Rupees One Lakh Fifteen Thousand Only), 3.Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	27-06-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical

Inspection Date and Time:- of property from **16-06-2025 to 20-06-2025 Between 11:00AM to 04:00PM** contact to Mr. Nikunj Mathur, Mobile- 9818979116 and Mr. Amit Gautam, Mobile- 8882444454 between 11am to 6pm.
Date and time of submission of EMD on or before 26-06-2025 up-to 5PM, with request letter of participation KYC, Pan Card , Proof of EMD at email id nikunj.mathur@dcbbank.com and amit.gautam1@dcbbank.com
The intending purchasers/bidders are required to deposit EMD amount by way of Demand Draft ONLY favouring DCB BANK LTD.

TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION
(1) (Contact T.Jaya Prakash Reddy, M.No. 8142000064 : Back End Office : 8142000066/63/62, Office mail Id : info@bankauctions.in & Mail Id: prakash@Bankauctions.in at their web portal https://bankauctions.in/ on the dates as mentioned in the table above with Unlimited Extension of 5 Minutes. Bidders are advised to detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids refer to the link https://www.dccbanc.com/cms/showpage/page/customer-corner.
(2) The interested bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance, which is mandatory for e-bidding, from auction service provider (4 closure .com), M.No. 8142000064 : Back End Office : 8142000066/63/62, Prospective bidders may avail online training on e-auction from their registered mobile number only.
(3) Online E-auction participation is mandatory in the auction process by making application in prescribed format which is available along-with the offer/tender document on the website.

Date: 11.06.2025
Place : Alwar, Bhiwadi, Rajasthan
Sd/-,
Authorized Officer,
DCB Bank Limited

ICICI Home Finance

Registered office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400005
Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059
Branch Office: Ground Floor, B-1/4, Community Centre, Janakpuri, New Delhi- 110058
Branch Office: Premises no. 14, 1st floor, Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi- 110092

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.
As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. Name of the Borrower/ Co-borrower/ Loan Account Number	Description of property/ Date of Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand (Notice Rs.)	Name of Branch
1. Vikas Kumar (Borrower), Deepika. (Co-Borrower), LHDWJ00001540804	Property Bearing No.60 (M-60), 3rd Floor, With Roof/ Terrace Right (Facing Road 20ft.), Out of Eastern Part of Property No. 60(M-60), Out of Khasra No. 38/5, Situated In The Area of Village Khayala, And The Colony Known As Sham Nagar, M- Block, New Delhi-110018, Area Measuring 93 Sq. Yds. Out of Total Area Measuring 150 Sq. Yds. Along With 1/4th Share of Parking Space in Split Floor, At Ground Level, Bounded By- North: Plot No.59,south: Portion of Plot No.60, East: Road 20 Ft Wide, West: Gali 10 Feet./ Date of Possession- 09-Jun-25	15-11-2024 Rs. 69,90,394.62/-	West Delhi- Janakpuri
2. Vikas Kumar (Borrower), Deepika. (Co-Borrower), LHDWJ00001540920	Property Bearing No.60 (M-60), 3rd Floor, With Roof/ Terrace Right (Facing Road 20ft.), Out of Eastern Part of Property No. 60(M-60), Out of Khasra No. 38/5, Situated In The Area of Village Khayala, And The Colony Known As Sham Nagar, M- Block, New Delhi-110018, Area Measuring 93 Sq. Yds. Out of Total Area Measuring 150 Sq. Yds. Along With 1/4th Share of Parking Space in Split Sq. Yds. Along With 1/4th Share of Parking Space in Split Floor, At Ground Level, Bounded By- North: Plot No.59, South: Portion of Plot No.60, East: Road 20 Ft Wide, West: Gali 10 Feet./ Date of Possession- 09-Jun-25	15-11-2024 Rs. 1,80,522.22/-	West Delhi- Janakpuri
3. Babita Kumari (Borrower), Aakash. (Co-Borrower), LHDLX00001622220	Plot No. 144, 145 & 146, Pvt. Unit No.201, 1st Floor Front LHS Unit Without Roof Rights, Khasara No 16 & 17, Situated In The Area of Village Nawada, Colony Known As Bahagwati Garden East, Shyam Kunj, Block-E, Uttam Nagar, Delhi- 110059 Area Measuring 50 Sq. Yards. Bounded By- North: Back LHS Unit No.203/ Other Property, South: Road 18ft. Wide, East: Front RHS Unit No.202/ Other Property, West: Plot No. 147./ Date of Possession- 05-Jun-25	18-03-2025 Rs. 25,08,094/-	East Delhi- Laxmi Nagar
4. Babita Kumari (Borrower), Aakash. (Co-Borrower), LHDLX00001622245	Plot No. 144, 145 & 146, Pvt. Unit No.201, 1st Floor Front LHS Unit Without Roof Rights, Khasara No 16 & 17, Situated In The Area of Village Nawada, Colony Known As Bahagwati Garden East, Shyam Kunj, Block-E, Uttam Nagar, Delhi- 110059 Area Measuring 50 Sq. Yards. Bounded By- North: Back LHS Unit No.203/ Other Property, South: Road 18ft. Wide, East: Front RHS Unit No.202/ Other Property, West: Plot No. 147./ Date of Possession- 05-Jun-25	18-03-2025 Rs. 88,455/-	East Delhi- Laxmi Nagar

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.
Date : June 11, 2025
Place: New Delhi, Uttam Nagar
Authorized Officer,
ICICI Home Finance Company Limited

DCB Bank Limited

A-Set House, 7/56, D.B.Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005

DCB BANK

E-AUCTION SALE NOTICE
[Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002]
E-Auction sale notice for sale of immovable Assets under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s), co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB BANK LTD., The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The property will be sold by tender cum public E-auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per the below details:-
The property will be sold "as is where is" and "as is what is" condition.

Sr. No.	Name of Borrower and Guarantors	Details of Mortgage Property	1. Reserve Price / 2. Earnest Money Deposit (EMD) / 3. Bid Increase Amount	Date & Time of E-Auction	Type of Possession
1.	VISHAL VASHISTH and MEENU VASHISTH	Residential Flat No.-309 On Third Floor In Rajwal Apartment, Built Up On Khasra No- 1060, 1017 & 1009 At Shri Ram Vihar Gumat, Haripavati Ward, Agra Uttar Pradesh -28200			

AXIS BANK
शाखा कार्यालय— ऐरिसस बैंक लिमिटेड, एनबीई लोन सेक्टर एनबीसी— 221, द्वापरा तल, परमणीत टॉवर, सेक्टर-12, कनौल-132001
कोर्पोरेट कार्यालय तीसरा तल, ब्लॉक-बी, बीबी बार्डन मिल्स कम्पाउंड, पंडुबुर्ग बुधवार मार्ग, रावली, मुम्बई—400028, पंजीकृत कार्यालय: डिगुल, तीसरा तल, समर्थसर नरौर के सामने, लॉ गार्डन, एरिससतॉवर, अग्रमण्यनगर—800008

सांकेतिक कच्चा नोटिस
उपबि: ऐरिसस बैंक लि. के अंगोत्तराधारी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय अतिर्यागों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 9 के साथ पंजीत धारा 13(2) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग कर मांग नोटिस जारी किया था जिसमें नीचे उल्लिखित उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। कर्जदार द्वारा राशि अया करने में अक्षमता रहने पर कर्जदार तथा उन साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओवरसिकरिंग ने उक्त नियमवली के नियम 8 के साथ पंजीत उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित राशि का ओवरसिकरिंग परीक्षा को सांकेतिक कच्चा ले लिया है। वित्तीय रूप से कर्जदार तथा सब साधारण को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ऐरिसस बैंक लि. के प्रभार के अागि होगा।

कार्यलय/सह-कर्जदार और जगमनी के नाम नाम/पते:— (1) मेसर्स लिमिटेड इंदरनेमल, अपने माहिक— श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन के माध्यम से, संवाहन का पता— प्रथम तल, प्लेट नंबर— 105, बेट विजनेस पार्क, प्लॉट नंबर— पी2, नेताजी सुभाष प्लेस, पीएमपुर, उत्तर पश्चिम, दिल्ली— 110034, अन्य पता— मेसर्स लिमिटेड इंदरनेमल, अपने माहिक— श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन के माध्यम से, संवाहन का पता— 8वीं मंजिल, कार्यालय नंबर— 814, बेट रखाई टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीएमपुर, उत्तर पश्चिम, दिल्ली— 110034, अन्य पता— मेसर्स लिमिटेड इंदरनेमल, अपने माहिक— श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन के माध्यम से, संवाहन का पता— यूटिड नंबर— 813बी, 814, बेट रखाई टॉवर, प्लॉट नंबर— एए-5, नेताजी सुभाष प्लेस, पीएमपुर, उत्तर पश्चिम, दिल्ली—110034 **(2) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी कहेत बंद कोलोन, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(3) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, जिला—सोनीनात—131301 हरियाणा **(4) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(5) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(6) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(7) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(8) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(9) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(10) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(11) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(12) मेसर्स बार्डी. पायस अपने भागीदारों के माध्यम से**— संवाहन का पता— जीड रोड, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा

मांग नोटिस की तारीख: 1 मार्च—2025 **सांकेतिक कच्चे की तारीख:** 4 जुन—2025 **बकाया राशि:—** रु. 5,43,64,149.50 /— (रुपये पाँच लाख चार हजार आठ सौ उनसवाय पचास मात्र)

कार्यलय/सह-कर्जदार और जगमनी के नाम नाम/पते:— (1) मेसर्स बार्डी. पायस अपने भागीदारों के माध्यम से, संवाहन का पता— जीड रोड, गोहा, जिला—सोनीनात—131301 हरियाणा **(2) श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री दुली चंद** निवासी 289, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, जिला—सोनीनात—131301 हरियाणा **(3) श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री अशोक कुमार जैन** निवासी 289, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(4) श्रीमती सती उषा पत्नी श्री अशोक कुमार जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(5) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(6) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(7) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(8) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(9) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(10) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(11) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(12) मेसर्स बार्डी. पायस अपने भागीदारों के माध्यम से**— संवाहन का पता— जीड रोड, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा

मांग नोटिस की तारीख: 1 मार्च—2025 **सांकेतिक कच्चे की तारीख:** 4 जुन—2025 **बकाया राशि:—** रु. 1,88,31,923.15 /— (रुपये एक करोड़ आठ सौ लाख इकत्तीस हजार नौ सौ तैंईस और पंद्रह पैंसा मात्र)

कार्यलय/सह-कर्जदार और जगमनी के नाम नाम/पते:— (1) मेसर्स श्री बामपुरी पील्लर्स अपने भागीदारों के माध्यम से, संवाहन का पता— महेदपुर रोड, गोहा, जिला—सोनीनात—131301 हरियाणा **(2) मेसर्स बार्डी. पायस** अपने भागीदारों के माध्यम से, संवाहन का पता— जीड रोड, गोहा, जिला—सोनीनात—131301 हरियाणा **(3) श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री दुली चंद** निवासी 289, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, जिला—सोनीनात—131301 हरियाणा **(4) श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री अशोक कुमार जैन** निवासी 289, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(5) श्रीमती सती उषा पत्नी श्री अशोक कुमार जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(6) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(7) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(8) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(9) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(10) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(11) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा **(12) श्री श्रेय जैन पुत्र श्री अतुल जैन** निवासी 289/2, वार्ड नंबर-3, पुरानी अनाज मंडी, गोहा, जिला—सोनीनात— 131301 हरियाणा

मांग नोटिस की तारीख: 1 मार्च—2025 **सांकेतिक कच्चे की तारीख:** 4 जुन—2025 **बकाया राशि:—** रु. 11,67,68,857.82 /— (रुपये ग्यारह करोड़ सड़तर लाख अड़तर हजार आठ सौ सत्तावन और बारासी पैंसा मात्र)

संपत्ति का विवरण: किसी विशेष प्राधिकरण सं. 2355 निर्माणक नं. 2022 द्वारा श्रीमती सती उषा पत्नी श्री अतुल जैन द्वारा स्थापित बाणिज्य बिल्डिंग यूनिट संख्या— 813-बी, 814, 8वीं मंजिल, मांग अनुमतिन कवाई परिषदा 80.66 वर्ग मीटर (853 वर्ग फुट) और पुराना एग्रा 87.89 वर्ग मीटर (946 वर्ग फुट), प्लॉट नंबर— एए-5 पर निर्मित क्रीडोव बाणिज्यक भवन का पार्द, बेट रखाई टॉवर, कबीरपुर जिला सेटुल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीएमपुर, दिल्ली— 110034। सीमारे: पूर्व, मार्ग, पश्चिम, खुला आसमान, उत्तर, लिफ्ट वाला हिस्सा, दक्षिण यूनिट नंबर-812

स्थान: दिल्ली/पंजाबीरा दिनांक: 11-06-2025 हमा./— प्राधिकृत अधिकारी, ऐरिसस बैंक लि.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: सी-9, सेक्टर-15, वसुंधरा, गाजियाबाद, उ०प्र०

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार को मांग सूचना।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्वारा कर्जदारों/ गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिंदी, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते हैं। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

कर्जदार एवं गारंटर का नाम	प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
उधारकर्ता: श्री नीरज कुमार सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह पता: (i) गाँव—साधपुर बल्ली दाउदपुर, सारण, बिहार—841205 (ii) मकान नं. 242-ए, सत्यम एक्स्लेव, साहिबाबाद, गाजियाबाद— 201005 (iii) प्लेट नं. एस-4, एमआईजी दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 295 और 295/ए, आवासीय कॉलोनी बालाजी एन्चलेव, गाँव रईसपुर, परगना डासना, गाजियाबाद में स्थित है। क्षेत्रफल 50 वर्ग मी. सीमारे: पूर्व: 18 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम: डीगर का प्लॉट उत्तर: प्लॉट नं. 293 और 294 दक्षिण: डीगर का प्लॉट	अचल सम्पत्ति: प्लेट नं. एस-4, एमआईजी दूसरी मंजिल, (छत के अधिकार सहित) प्लॉट नंबर 295 पर निर्मित, खसरा नंबर 1528मि का हिस्सा और प्लॉट नंबर 295ए, खसरा नं. 1547 का हिस्सा, आवासीय कॉलोनी बालाजी एन्चलेव, गाँव रईसपुर, परगना डासना, गाजियाबाद में स्थित है। क्षेत्रफल 50 वर्ग मी. सीमारे: पूर्व: 18 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम: डीगर का प्लॉट उत्तर: प्लॉट नं. 293 और 294 दक्षिण: डीगर का प्लॉट	13(2) नोटिस की तिथि: 01.03.2025 एनपीए: 28.02.2025 रु. 9,13,007.11 (रुपये नौ लाख तेरह हजार सात और पैंसे ग्यारह मात्र) अनुसूची ए में उल्लिखित लागू ब्याज दरों पर आगे का ब्याज, साथ में नोटिस की तिथि 01.03.2025 से पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक, साथ ही अनुबंध की शर्तों और/या कानून के अनुसार आपसे वसूल किए जाने वाले आकस्मिक व्यय, शुल्क और लागत, इस नोटिस की तिथि से सात दिनों के भीतर भुगतान के लिए कहा गया है।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के सम्वन्ध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 10.06.2025 स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिय

औदित अधिव्यवस्था सूचना			
क्र. सं.	ऋणकर्ता/ सह-ऋणकर्ता का नाम / ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण / अधिव्यय की तिथि	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना में तिथि (ए)
1.	विकास कुमार (ऋणकर्ता), दीपिका (सह-ऋणकर्ता), LHDWJ00001540804	संपत्ति संख्या 60 (एन-60), तृतीय तल, छत/टैरेस अधिकार के साथ (सड़क के सामने 20 फीट), संपत्ति संख्या 60 (एन-60) के पूर्ण भाग में से, खसरा संख्या 38/5 में से, खाला गांव के क्षेत्र में और शाम नगर के नाम से विहित कोलोनी, एन-ब्लॉक, नई दिल्ली- 110018 में स्थित है, कुल क्षेत्रफल माप 150 वर्ग गज में से 93 वर्ग गज, नू स्तर पर रिस्टेट प्लेस में मूल पर 1/48 पॉरिके सेंस हिस्से के साथ, इस प्रकार परसेसिमेंत है :- उत्तर : प्लॉट नं. 59, दक्षिण : प्लॉट नं. 60 का हिस्सा, पूर्व : सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिम : गली 10 फीट। अधिव्यय की तिथि : 06-जून-25	15-11-2024 69.90,394.62 /—
2.	विकास कुमार (ऋणकर्ता), दीपिका (सह-ऋणकर्ता), LHDWJ00001540920	संपत्ति संख्या 60 (एन-60), तृतीय तल, छत/टैरेस अधिकार के साथ (सड़क के सामने 20 फीट), संपत्ति संख्या 60 (एन-60) के पूर्ण भाग में से, खसरा संख्या 38/5 में से, खाला गांव के क्षेत्र में और शाम नगर के नाम से विहित कोलोनी, एन-ब्लॉक, नई दिल्ली- 110018 में स्थित है, कुल क्षेत्रफल माप 150 वर्ग गज में से 93 वर्ग गज, नू स्तर पर रिस्टेट प्लेस में मूल पर 1/48 पॉरिके सेंस हिस्से के साथ, इस प्रकार परसेसिमेंत है :- उत्तर : प्लॉट नं. 59, दक्षिण : प्लॉट नं. 60 का हिस्सा, पूर्व : सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिम : गली 10 फीट। अधिव्यय की तिथि : 06-जून-25	15-11-2024 1,90,822.22 /—
3.	बबीता कुमारी (ऋणकर्ता), आकाश (सह-ऋणकर्ता), LHDLX00001622220	प्लॉट नं. 144, 145 और 146, प्राइवेट यूनिट नं. 201, प्रथम तल सामने की बाईं ओर की यूनिट बिना छत के अधिकारों के, खसरा नं. 16 और 17, ग्राम नवादा के क्षेत्र, कॉलोनी लिवे मायवली गार्डन एक्सटेंशन स्थान कुंज के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक-ई, उत्तरम नगर, दिल्ली- 110059 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है, जो निम्नानुसार परसेसिमेंत है :- उत्तर : प्लॉट बाईं ओर की यूनिट नं. 203 / अन्य संपत्ति, दक्षिण : सड़क 18 फीट चौड़ी, पूर्व : समान आरक्षणस यूनिट नं. 202 / अन्य संपत्ति, पश्चिम : प्लॉट नं. 147 अधिव्यय की तिथि : 06-जून-25	18-03-2025 25,08,094 /—
4.	बबीता कुमारी (ऋणकर्ता), आकाश (सह-ऋणकर्ता), LHDLX00001622245	प्लॉट नं. 144, 145 और 146, प्राइवेट यूनिट नं. 201, प्रथम तल सामने की बाईं ओर की यूनिट बिना छत के अधिकारों के, खसरा नं. 16 और 17, ग्राम नवादा के क्षेत्र, कॉलोनी लिवे मायवली गार्डन एक्सटेंशन स्थान कुंज के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक-ई, उत्तरम नगर, दिल्ली- 110059 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है, जो निम्नानुसार परसेसिमेंत है :- उत्तर : प्लॉट बाईं ओर की यूनिट नं. 203 / अन्य संपत्ति, दक्षिण : सड़क 18 फीट चौड़ी, पूर्व : समान आरक्षणस यूनिट नं. 202 / अन्य संपत्ति, पश्चिम : प्लॉट नं. 147 अधिव्यय की तिथि : 06-जून-25	18-03-2025 88,455 /—

उत्तर-वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/ गारंटर(ओं) को एतद्वारा निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा संवककृत संपत्तियों का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समुपन पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, विद्यमान कर दिया जायेगा।

दिनांक: 11 जून 2025 स्थान : नई दिल्ली, उत्तरम नगर प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: सी-9, सेक्टर-15, वसुंधरा, गाजियाबाद, उ०प्र०

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार को मांग सूचना।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्वारा कर्जदारों/ गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिंदी, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते हैं। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

कर्जदार एवं गारंटर का नाम	प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
उधारकर्ता: श्री शिव सिंह पुत्र राम चंद्र सह—उधारकर्ता: श्री मनीष कुमार पुत्र श्री शिव सिंह दोनों का पता: (i) 2632, गली नं. 8, भगत सिंह, चूना मंडी पहाड़ गंज, स्वामी राम तीर्थ नगर, दिल्ली—110055. (ii) प्लेट नं. एसएफ—2, दूसरी मंजिल (छत के अधिकार सहित), सामने की तरफ, एम.आई.जी., प्लॉट नं. ए-7/6, डी.एल.एफ. अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद. गारंटर: श्री मयंक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री. गणेश प्रसाद श्रीवास्तव (i) प्लॉट नं.1906, टॉवर—सी, एआईएमएस ग्रीन एवेन्यू, प्लॉट नं. जीएफ—04, सेक्टर—04, ग्रेटर नोएडा, यू.पी. (ii) 235, इंदिरा विहार, दिल्ली	अचल सम्पत्ति: प्लेट नंबर एसएफ—2, दूसरी मंजिल (छत के अधिकार सहित), सामने की तरफ, एम.आई.जी., प्लॉट नंबर ए-7/6, डी.एल.एफ. अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद सीमारे: पूर्व: आदर्श भूमि पश्चिम: प्लॉट नं. ए-7/7 उत्तर: पार्क दक्षिण: 9 मी. चौड़ी सड़क	13(2) नोटिस की तिथि: 04.02.2025 एनपीए: 29.01.2025 रु. 33,62,900 /— (रुपये तैंतीस लाख बासठ हजार नौ सौ मात्र) अनुसूची ए में उल्लिखित लागू ब्याज दरों पर आगे का ब्याज, साथ में नोटिस की तिथि 04.02.2025 से पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक, साथ ही अनुबंध की शर्तों और/या कानून के अनुसार आपसे वसूल किए जाने वाले आकस्मिक व्यय, शुल्क और लागत, इस नोटिस की तिथि से सात दिनों के भीतर भुगतान के लिए कहा गया है।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के सम्वन्ध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 10.06.2025 स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिय

SIMBHAOLI SUGARS LIMITED
(Formerly known as 'Simbhaoli Spirits Limited')
Regd. Office : Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.) - 245207
CIN - L15122UP2011PLC04210
E-mail: info@simbhaolisugars.com Website: www.simbhaolisugars.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025					
		Quarter Ended		Year Ended	
S. No.	Particulars	March 31,2025 Audited	December 31,2024 Unaudited	March 31,2025 Audited	March 31,2024 Audited
1.	Total income from operations (net)	31,580.96	22,120.12	34,537.66	97,674.29
2.	Net Profit/(loss) for the period before Tax and exceptional items	4,752.90	(265.90)	3,515.99	2,399.05
3.	Net Profit/(loss) for the period before Tax and after exceptional items	4,752.90	(265.90)	3,515.99	2,399.05
4.	Net Profit/(loss) for the period after Tax and exceptional items	4,752.90	(265.90)	3,515.99	2,399.05
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising net profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,725.81	(265.90)	3,460.24	2,371.96
6.	Paid up equity share capital (face value Rs.10/-each)	4,127.90	4,127.90	4,127.90	4,127.90
7.	Other Equity			(8,797.46)	(11,188.37)
8.	-EPS before exceptional item	11.51	(0.64)	8.52	5.81
	-EPS after exceptional item	11.51	(0.64)	8.52	5.81

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended Mar 31, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results for the quarter and year ended Mar 31, 2025 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.simbhaolisugars.com).
2 Due to sub-optimum capacity utilization of its manufacturing capacities and other internal and external factors, the Company had continuously incurred huge losses in past resulting in complete erosion of its net worth, rendering the Company unable to meet payment obligations towards its lenders as well as to the sugarcane farmers in terms of their respective agreements and understanding. Due to defaults in repayment of credit facilities, lenders to the Company had initiated recovery proceedings at various forums, including filing of applications before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and also filing of recovery proceedings against personal guarantors (Promoters) before NCLT under section 95 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, in addition to approaching Debt Recovery Tribunals in Delhi as well as in Lucknow, Uttar Pradesh. Two of the lenders had declared the Company and Guarantors to the credit facility, as Willful Defaulters, which was Set Aside by Hon'ble Punjab and Haryana High court at Chandigarh and Delhi High Court. Further, one of the lenders has also issued show cause notice to the Company on April 25, 2025 to categorize the account as fraud. Since, the Company is under control of IRP, the IRP on behalf of the Company is not in position to contest the Show Cause Notice. The same has been duly informed to the lender by the IRP. However, members of the suspended Board of Directors can contest the same in their own capacity. While one of the lenders had initiated recovery proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act, wherein non-bailable warrants were issued against the erstwhile directors and officials of the Company, which are being contested at the appropriate forum. Against a criminal complaint filed by one of the lenders, the Enforcement Directorate had passed an Attachment Order on certain assets of the Company to the extent of 109.80 Crore, against which the Company had preferred an appeal before with the appropriate authority and an Interim Stay had been granted by the Hon'ble Appellate Tribunal.

3 Pursuant to an application filed by Oriental Bank of Commerce (now Punjab National Bank) before Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Prayagraj ("NCLT") under section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with the rules and regulations framed thereunder ("Code"), the NCLT had admitted the application and ordered the commencement of Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") of Simbhaoli Sugars Limited ("Corporate Debtor" or "Company") vide its order dated July 11, 2024. NCLT had appointed Mr. Anurag Goel, as Interim Resolution Professional (IRP) to carry the functions as mentioned under the Code. Since then, Mr. Anurag Goel has in his capacity as IRP took control and custody of the management and operations of the Corporate Debtor. One of the Promoters of the Company, M/s. Gursimran Kaur Mann and one of the farmers Mr. Surennder Pal Singh Mangat, who has been supplying cane to the Corporate Debtor and also providing transport services to the Corporate Debtor under name and style of M/s Simbhaoli Transport Carriers Pvt.Ltd., a 60:40 venture between promoters of Simbhaoli Sugars Limited (60.00%) and Mr. Surennder Pal Singh Mangat and his family (40.00%), have filed an appeal before the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal, New Delhi ("NCLAT") against the order passed by NCLT on July 11, 2024. The NCLAT vide its interim order dated July 24, 2024 allowed time in view of giving opportunity to the financial creditors to take a decision with regards to the settlement proposals received by them and given directions that no further steps shall be taken in pursuant of the impugned order passed by NCLT and allowed IRP to continue to manage the operations of the corporate debtors and fixed the next date of hearing on July 21 2025 & July 22, 2025.

4 Considering the above stated facts, no provision of interest payable to the commercial lenders has been made in the accounts for the past several years/quarters. Further considering the fact of admitting the Company to CIRP and pending decision of NCLAT, no provision of interest payable to non-commercial lenders has been made during the year for the periods after June 30, 2024. The estimated interest expenses on credit facilities for the quarter and year ended March 31, 2025 amounting to ₹ 8,116.17 Lakhs and ₹ 63,937.03 Lakhs respectively, basis the contracted rates and claims filed by the financial creditors before IRP (Previous Quarter and Year ended March 31, 2024 ₹ 9,347.63 Lakhs and ₹ 22,144.56 Lakhs respectively) and estimated accumulated interest expenses amounting to ₹ 1,75,029.63 Lakhs has not been provided for in the books of accounts as on March 31, 2025. The auditors have drawn qualification in this regard in their Audit Report for the quarter and year ended March 31, 2025.

5 On finalization and implementation of the CIRP through Hon'ble NCLT, the Company shall assess the impairment in the carrying amount of Property, Plant and Equipment and other assets and accordingly will provide it. Further, write back of accounted for accrued interest payable to lenders, outstanding liabilities of lenders and other operational liabilities shall also be accounted for after finalization and implementation of CIRP. The above audited financial results are drawn on the basis of carrying amount as per books of accounts of the Company. The auditors have drawn qualification in this regard in their Audit Report for the quarter and year ended